

चाँदनी चूनर



लहु च मायुर

र ११०.८
श्राव्यं | श्राव्यं

साहित्य भवन प्राविलिंग
कलाकारालय

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, पुस्तकालय

इलाहाबाद

२११८

वर्ग संख्या.....

~~श्रृङ्गार~~ श्रृङ्गार

पुस्तक संख्या.....

५२४७

क्रम संख्या.....

चाँदनी चूनर

पुस्तक

प्रकाशक: विजय प्रकाशन - चंडीगढ़

शकुंत माथुर

साहित्य मणि (प्राइवेट) लिमिटेड
इलाताबाद

प्रकाशक
साहित्य भवन प्राइवेट लिमिटेड
इलाहाबाद-३

प्रथम संस्करण, १९६०
मूल्य तीन रुपये

मुद्रक
प्रयाग पत्रिका प्रेस
इलाहाबाद

● क्रम-चिट्ठु

१. जान बूझ कर नहीं जानती	१
२०. गोरी बातें	३
३. चौदहवां साल	५
४. क्वांरा कमरा	७
५. विपर्ययों की दुनियां	९
६. पहिली विदा	११
७. बरस बीत गया	१३
८. बरगद की छाया	१६
९. निगाहों ने कहा	१८
१०. कुछ नहीं बात	२१
११. दादी	२४
१२. भविष्या	२६
१३. रात और बात	३१
१४. बादल	३५
१५. बरसाती नदि	३६
१६. गाड़ी	३८
१७. यात्री के दिवा-स्वप्न	३९
१८. सूत्र	४१
१९. सूत्र	४२
२०. सूत्र	४३
२१. सूत्र	४४
२२. कुर्सी	४५
२३. समाज-ज्ञान	४६

२४०. नए जुआरी	५०
२५०. नई कसौटी	५१
२६०. जीवन, एक अछूता आयाम	५२
२७०. कोयल पिंजरे में पकड़ पाई	५३
२८०. होली	५७
२९०. चिनारकी घाटी के दुकड़े	५८
३००. लीडर का निर्माता	६२
३१०. दो शब्द चित्र	६४
३२०. अन्तर-तथ्य	६८
३३०. गलें फिर हिम शिखर	६९
३४०. बस स्टैंड	७२
३५०. एक अनुभूति	७६
३६०. नीम के फूल	७७
३७०. काले मेघ	८०
३८०. पूजा	८४
३९०. जल-चाँद	८६
४००. आहं का खोख	८८
४१०. कौन सी ऋतु आई	९०
४२०. मेघ-जीवन	९२
४३०. भीगी है बात	९४
४४०. फूलों के झुरझुट	९७
४५०. तुम सुन्दर हो, घर सुन्दर हो	९९
४६०. बदली का चाँद	१०१
४७०. मध्यावित्त	१०२
४८०. पिक्र का लबादा	१०४
४९०. रिक्त चितवन	१०६

५०. हिम शिला	१०८
५१. आंधी का दिया	१११
५२. कलाकार की आवाज़	११२
५३. अन्तर की पूर्णता	११५
५४. सिहरन का भार	११६
५५. बसंती फूल	११७

: वक्तव्य :

‘चाँदनी चूनर’ मेरी कविताओं का पहिला संग्रह है। नियमित रूप से कविता लिखना मैंने सन् इकतालीस से शुरू किया था, किंतु प्रस्तुत पुस्तक में इस काल की कुछ चुनी हुई रचनाएँ ही संग्रहीत हैं। मैंने शुरू ही से कभी इनके बारे में यह नहीं सोचा कि यह अमुक शैली, ‘स्कूल’ या बाद के अन्तर्गत आती हैं। इस रूप में यह रचनाएँ पद्ध-रहित हैं और इनमें मैंने जीवन के सहज को ही बांधने की चेष्टा की है।

मैंने जब कविता लिखना आरंभ किया था उस समय छंदविहीन सहज रचनाएँ कविता को परिभाषा में नहीं आती थीं। कविता की जो शैलियां तब प्रचलित थीं उनके आगे सरल कथ्य, छोटे छोटे विषय, एकदम निजी (पर्सनल)। ईमानदार अनुभूतियां और सामान्य जीवन से उठायी उपमाएँ-प्रतीक आदि अजनबी लगते थे। उस समय सहज, अनगढ़ और एक दूसरे ही अंतरिक पैमाने पर लिखी कृतियों की कोई चर्चा नहीं थी, हालांकि प्रयोगवाद में ऊपरी तौर से रूप विधान के प्रयोग हो रहे थे, नए शब्द बन रहे थे, विशेषणों में नया-पन आरहा था, पर नज़र अभी वही रोमानी छायावादी थी। वही शब्दयोजना थी और वही काल्पनिक अनुभूतियां; सिर्फ संदर्भ का अन्तर हुआ था। ज़िंदगी के हज़ारों अछूते पहलू अभी अनदेखे पड़े थे। यह इतिहास का ही निर्णय है कि जो चङ्ग एक दिन स्वीकृति के दायरे से बाहर थी वही आगे चलकर प्रतिष्ठित हुई और भविष्य की दिशा बनी।

कविता की यह नयी धारा उन समस्त पुराने बंधनों को काटकर आई है जो जीवन की सहज अभिव्यक्ति में बाधक थे। कोई भी वस्तु अकारण उद्दित नहीं होती, समय की मांग और दबाव से ही उपजती है। जिन लोगों ने नई शैली की कविता को सिर्फ़ फैशन, पश्चिम की नकल, परंपरा रहित, भ्रष्ट, असामाजिक और कौतुक, तमाशा या चमत्कार कहा उन्होंने उसके असली रूप को नहीं पहिचाना। उन्होंने यह नहीं देखा कि यह कोई शोड़े से लोगों का चलाया बेकार का आंदोलन नहीं है बल्कि एक ऐसा व्यापक रास्ता है जो अब तक बंद था पर जो इस देश की भूमि, विशेषता और नये विकास के अनुकूल था, जिसके खुलते हो सारी चेतना उस पर चल पड़ी, क्योंकि उसे ठीक अभिव्यक्ति का मार्ग मिला था।

नयी कविता व्यक्ति को मूल तत्व मानकर चली, लेकिन वह व्यक्ति कोई अलग-थलग, असाधारण इकाई नहीं था, सामान्य यूनिट था। जन था,

जनता नहीं। व्यक्तित्व हीन समूह-जन भी नहीं किन्तु अपनी सामाजिक विशेषता से पूर्ण जागरूक जन। इस चीज़ से न तो प्रगतिवादी समूह-जन की भावना मेल खाती थी, न छायावादी तथा प्रयोगवादी असाधारण व्यक्तित्व या आत्म-लीन हीरों की। नयी कविता के साधारण सामाजिक व्यक्ति में ही उसे सही अभिव्यक्ति प्राप्त हुई। यही इस कविता की युगानुकूलता है।

आज का यंत्रयुगीन जीवन संघर्ष-भरा है और बहुत गतिशील है। इस गतिशीलता ने ही आज की कविता को उसका छोटा आकार दिया है। दूसरी ओर संघर्ष ने उसे वास्तविकता के बिल्कुल निकट लाकर खड़ा कर दिया है। आज का कवि अपने पास की ही वस्तुओं को लेकर उनके वास्तविक रूप पर पढ़े परदे उठा रहा है। सचाई और ईमानदारी से उसे देखना चाह रहा है। इसीलिए नयी कविता में वास्तविक जीवन की भाषा, बोलचाल के शब्द, मुहावरे तथा दैनिक जीवन में व्यवहार की जानेवाली चीज़ों के प्रतीक, उपमान आए हैं। आज के कवि ने भारी शब्दों, काल्पनिक उड़ानों और अमेदा शैली के कृत्रिम बोक का लबादा उतार फेंका है। कल्पनाओं का स्थान दैनिक सत्यों ने ले लिया है। वह जीवन को आज किसी दूसरे साहित्येतर माध्यम से नहीं देखना चाहता-जैसे राजनीति, पंजी, प्रभुता, राज्याश्रय या अर्थाश्रय का दबाव होता है। इसके विपरीत वह अपने विवेक, अंतःकरण और वस्तुजगत के अनुभवों का सहारा लेता है और निष्पक्षता से सत्यों का उद्घाटन करता है। आडंबर विहीन, यथार्थ, अनावृत सत्य के अंकन में आज उसे सबसे अधिक आनन्द प्राप्त होता है। आज वह अधिक ईमानदार है।

इस सहज सत्यकी खोज में लगे स्वाभाविक व्यक्ति के छोटे-छोटे सुख-दुख, उसकी सामाजिक पारिवारिक अनुभूतियाँ ही मेरी कविता की विषयवस्तु हैं। ये घर-गृहस्थी से उठाए आनन्द के दुकड़े हैं, अनुभूतियों के छोटे-छोटे आइने हैं, जिनमें घर की सहज रसमय दृष्टि से संसार को देखा गया है। घर समाज की एक भरी-पूरी इकाई है, उसका मुखदुख समस्त संसार का मुख-दुख है। उसकी संवेदना, ममता, उदारता, समझदारी ही व्यापक होकर सांस्कृतिक दृष्टि बनती है। उसके तन और मन का स्वास्थ्य और संस्कार समाज का स्वास्थ्य और संस्कार है और उसके विवेकपूर्ण आनन्द, मर्यादा और ताज़गी का विस्तार ही मानवीय मूल्य बन जाता है।

मेरी मान्यता है कि :

- नयी शैली की कविता जागरूक साधारण आदमी की कविता है।
- यह कविता दूर की कल्पनाओं में, शब्द जाल में, अलंकरण के नये प्रयोगों की खींचतान में या जबरन थोपी हुई फ़िलासफी में निकटतम सत्यों की वास्तविकता को छिपाना या उस पर पर्दा डालना नहीं चाहती।
- इस कविता की आधारभूमि सामान्यतम घटनाओं की छोटी से छोटी स्वाभाविक प्रतिक्रियाएँ हैं जिससे विश्वान के सत्य के साथ भाव सत्य का मेल हो सके।
- वह हर स्थिति को स्वीकार करके नए समाधान ढूँढ़ती है, भावुक विरोध से नहीं।
- चंकि यह कविता वास्तविक जीवन के साधारणतम सत्यों पर आधारित, है इसलिए निष्पक्ष है।

इस कविता के अन्तर्गत वर्तमान से 'एस्केप' की कविता नहीं आ सकती। वर्तमान से एस्केप और कल्पनाओं में सुख रोमांटिक पलायन है, जो अब तक की अधिकांश कविता में रहा है। वह तत्व अब खत्म होता जा रहा है। पहिले वर्तमान को स्वीकार करना, फिर उसमें रमना और विवेक, जिशासा तथा तर्क से उसमें निहित सत्य को ढूँढ़ना ही वैज्ञानिक चिंतन है। इसी आधार पर आगे की नई कविता विकसित होगी और वैज्ञानिक युग के अनुकूल बन सकेगी।

घर, आँगन, चौके से जो संस्कृति, विवेक, अनुशासन तथा रसज्ञता जन्मती है वह बेसिक होती है, स्थायी होती है। इसी कारण समाज का जिस पूर्ण खंड-इकाई में मैं रमी हूँ उसके सुखदुख की आनंदमयी अनुभूतियों को साधारणीकृत करने की चेष्टा मैंने की है। 'बरगद' या 'सितम्बर में आई थी' नामक कविताएँ इसका उदाहरण हैं। घर की विविधता-भरी अनन्त घटनाओं भावनाओं की व्यापकता को मैंने बँधने की कोशिश की, इसी से मेरी कविताएँ एक पैटर्न की नहीं हैं। उपमान घरेलू जीवन से उठाए हैं, भाषा और मुहावरे एकदम गृहस्थी की बोलचाल बाले हैं। 'नदी' शब्द सहज वार्तालाप के बीच 'नदि' की तरह हो जाता है इसलिए उसे 'नदि' ही लिखा है। जिन शब्दों को घरों में असली रूप में जैसे बोला जाता है वही रहने दिए हैं। शैली में कुछ नए प्रयोग भी किए हैं, जैसे उलटवांसी शैली का प्रयोग (विपर्ययों की दुनियां), फ़ेन्टेसी शिल्प जैसे 'क्वार्ंरा कमरा', मात्र वातावरण की चिन्तिता से

(६)

अपनी बात छिपाकर कहना जैसे 'कुछ नहीं बात' शीर्षक कविता, ग्राम्य प्रतीकों द्वारा पारिवारिक जीवन के चित्र-जैसे 'नीम के फूल,' 'सितम्बर में आई थी', कुछ सुनितयों की तरह सूत्र, कुछ व्यांग्य-चित्र, हल्की-फुलकी सिद्धुएशंस-जैसे 'तुम सुन्दर हो, घर सुन्दर हो', कुछ बदलते व्यावहारिक मूल्य-जैसे 'निगाहों ने कहा' और 'बस स्टैंड' आदि।

इन कविताओं में सहज सत्य की स्वीकृति है।

कविताएँ प्रस्तुत हैं।

१८/बी-५, स्टेनले रोड

—शकुन्त माथुर

इलाहाबाद

[२५ अगस्त १९६०]

● जान बूझ कर नहीं जानती

आज मुझे लगता संसार खुशी में छूबा
क्यों
जान बूझकर नहीं जानती
आज मुझे लगता संसार खुशी में छूबा

माँ ने पाया अपना धन ज्यों
बहुत दिनों का खोया,
बहुत बड़ी क्वांरी लड़की को
सुधर मिला हो इल्हा,
मैल भरी दीवारों पर
राजों ने फेरा चूना,
किसी भिखारिन के घर में
बहुत दिनों के पीछे
मंद जला हो चूल्हा,

झूँढ़े की काया में फिर से एक बार
यौवन हो कूदा,
पकड़ गया था चोर अकेले कूचे में जो
किसी तरह वह कारागृह से छूट गया हो
या कि अचानक किसी वियोगिनि का पति
लौटा
उसी तरह
आज मुझे लगता संसार खुशी में डूबा
क्यों
जान बूझकर नहीं जानती

चांदनी चूनर

● गोरी बातें

मेरे मन में गोरी बातें, फैल रही हैं दूध-सी
उठ आई हैं हरी धास पर रंग-बिरंगी, फूल-सी
मेहदी की झाड़ी में उलझा, पल्ला हल्के चीर का
कौन उठाए भरा रखा घट नदि पै मीठे नीर का

चंदा आता हटा-हटाकर काले बादल भीड़-से
झांक रहा है कभी पखेल लुक छिप अपने नीड़ से
कूद रहा खरणोश, कभी है लिपट रहा तरु छाल से
उधर अहेरी सोच रहा है वांछे उसको जाल से

थिरक रही कच्चे आंगन में गोरी बहू किसान की
मूँग ज्वार अरहर है फूली, चूनर गहरी धान-सी
लाल-लाल हाथों को देख, मेहदी भी शरमा गई
देख प्रिया के होंठ रसीले दिल में गर्मी आ गई

उधर खड़ा है वीर बाजरा, हरी-हरी पागड़ वाला
चुप कह मुंह में देती उँगली, हंसती है नरगिस बाला
उसी समय पर बादल बिजली आ गए
उकसी नरगिस के खुले अधर घबरा गए

● चौदहवां साल

क्या जानूँ यह निरी अकेली मस्ती है
क्या जानूँ टेढ़ी, बलखाती, सीधी, फैली, बिखरी है
कह दूँ पूरा चाँद
चौदहवां साल
आखें भुकतीं
नयी कटीली
कितु अधूरी
आभा स्किलती
चमक सुनहरी
उठता है तूफान
खुलते अंगों में भरती है
नित नूतन मुस्कान
विद्युत-सी छितराती, बात बात में
बात न आती

एक अचानक विखरी लहरी, जान न पाती
ऐसा ये सुन्दर गुलाब उठते खुमार का
चिह्न कहाँ भर पाया
अभी सुबद प्यार का
खत्म चौदहवाँ साल
ज्यों चौदहस की रात
केवल हँसता चाँद
नहीं कह सकते पूर्णमासी

● क्वांरा कमरा

[फैन्टेसी]

एकाकी कमरा
पास में क्यारी
डाली पर एक गुलाब
उस पर मधुमाखी
कमरे का कोना
मकड़ी का जाला
मक्खी का फसना

हरे ढाक के पत्तों का दोना
उसमें भरे फूल
कुछ शूल
अंजलि गोरी
नजरें भोली
तराजू के पलड़ों सी इधर उधर डोलीं
तोलीं

पत्तों का दोना
अंजलि गोरी
सपने का सोना
उस ताक में
हैजलीन स्नो की शीशी
तेल की खुशबू तीखी
छोटी डिबिया
वैसलीन भरी
नीली बोतल में
कटी सुपारी गरी
दिवाल की घड़ी
किन्हीं उंगलियों ने छुई
धुमा दी सुई
क्या बजा ?
मन को कुछ अच्छा सा लग रहा
जाल और फंसना
गुलाब-मधुमाखी ।
बड़ी मेज पर
सुन्दर सा लैम्प
रोशनी तिरछी तेज़
शैलफ में रखीं किताबें
एक का हैंडिंग
गरम काफ़ी की भाष
मन भचला
हूँ !
अच्छा !
एकाकी कमरा—

● विषयों की दुनियां [उलटबांसी शैली में]

घूमने निकला
बाजार में
मिल गया हजार में
गली के नक्कू हलवाई को
किताब बेचते देखा
बुक्सेलर को
नानपाओ सेकते देखा
साहित्यिक
भाड़ पर था
भड़भूंजा अभी दूर कहीं
थ्रमदान के अभियान पर था
बहुत कुछ यहाँ खरीदा
झोले में डाला

घर आया

खुले किवाड़ों को बंद किया

ताला लगाया

भीतर घुसा

मैने भी किताबों के लंबे लंबे

स्लाइसेज़ काटे

शहद लगा लगा खूब चाटे

जिंदगी हरी सब्जी के

छिलकों-सी

ला कूड़े पर डाली

कुत्ता आया

सब्जी खा गया

गऊ खड़ी देखती ही रही

समझी सभी कुछ चिष्ठा हैं

जीवन में आज कुछ ऐसी ही निष्ठा है

● पहिली विदा

भर आता जी विदा समय
उर में मेघों का भंडार
लिए नयनों में धोई बूँदें
फूलों में एकत्रित कर लीं
केसर जैसी

मूँदु पल्लव की गोदी में
पली कली सी
तारों भरे पुलिन में
जैसे खिली जुन्हाई
नित प्रति धूपदान से उड़ती रही
ज्यों
स्वच्छंद सरगम पर
बंधन-हीन बहार-सी

पद्मा-सी
निज चरण बढ़ाती
धीरे सखियों के सँग
कँपती पीत पताका सी
सूर्य किरण की माल लिए
मेहदी रंजित हाथों में, ज्यों
विद्युत रेखा आई द्वारे
दूर मेघ के साथ
चली जाने को

● बरस बीत गया

सितम्बर में आई थी
पूरा बरस बीत गया
फिर से उठा गीत नया

शरद, शीत, बसंत, गर्मियां
कड़ी धूप, लू, मस्त हवा
ठिठुरन भरी रैन, दिवस
वर्षा भर की धूप-चांह
जीवन का एक वृत्त धूम गया
पूरा बरस बीत गया

याद आ रहा मुझे
वही नीम वाला पेड़
पीपल की छांह

बत्ताई मीठी मकई की रोटियाँ
ताजे बिलोए मठे की कढ़ी
सफेद मक्खन की गोटियाँ
बुलाती हैं सपनों में
नन्हे भाई-बहिनों की
परिचित पड़ोसियों की
तुलाती, मीठी बोलियाँ

प्यारी गोरी गाय
उसकी दूध-पीती बछिया
दो बड़ी भैसें पंजाब से मंगाई हैं
वो भी अभी व्याई हैं

गर्मी भर
पापड़ बेले
मंगड़ी बड़ी बना
वर्ष भर को छुट्टी पा ली
नीदू का शरबत
दही की लस्सी
आइस्क्रीम मशीन की
कुल्फ़ी
मन भर भरकर खिलाई

जाड़ों में साथ साथ
अंगीठी से हाथ तापे
ओले गिरे
कांटे-सी हवा चली

कड़कती सर्दी में
गरम आलू के पराठे, मूंग के बड़े
कचौरी पिढ़ी की खिलाई
अब मैं भर पाई
मैंके की याद आई
पहुंचा दो
भाई मेरा दो बार लौट गया
पूरा वरस बीत गया

वरसात में पहिनीं
हरी लाल साड़ियाँ
रिमझिम फूहार में
चटकीले ब्लाउज
कसी हुई आंगियाँ
वसंत में गेंदे के फूल-सी
बाढ़ की नदि भरे कुल-सी
अपने शहद भरे छत्ते पर
बड़ी मधुमक्खी सी
साल भर का रस इकट्ठा हुआ
एक एक कोष्ठ छत्ते का भर गया
और क्या चाहो बता दो
मुझे मेरे मैंके पहुंचा दो
फिर से उठा गीत नया
पूरा वरस बीत गया

● बरगद की छाया

विकसित वटवृक्ष
भरा हर्ष
उलझी लटें
फूली फलीं
मिलीं
विलग पत्तों से भरी लटें
भूलतीं अधर में
फूलतीं अधर में
नीचे आ जड़ पकड़तीं
फिर वहीं बरगद में जा मिलतीं
एक
बरगद
छायादार !

सभी पंछी छोटे बड़े
डैने फैला
बसेरा लेते
कड़ी वर्षा
धूप
ओले, बिजली से वचते
पा जाते त्राण
उसी गह में
अंधियारे उजाले में
छोटे बड़े कुमि
तीक्ष्ण भूख निवारण
गृहस्थी सुव्यवस्थित, सुख से भरपूर
वट-वृक्ष का उदाहरण

सुखी घर की हर गृहणी
नियम परायण
श्रम शक्ति विभूषित
स्वयं
अपने भंडार से
अन्य द्वित कुछ अवश्य निकालती है
उशीर की सुगंधि-सी सुवर्णा
थोड़ा बहुत बाँटती है भरे से
कुछ छाँटती है
प्रथा ही सही
एक गाय को
श्वान कौवे को रोटियाँ
पखेरुओं को

बरगद की छाया

१०

उड़ती चिड़ियों
 कबूतरों को
 दाने चावल बाजरे के
 छूत पै डालती है
 मन हिंडोला सा इसी गृहस्थी में
 इसका भूलता है
 तन मृगछाँना सा इसी से
 लिपटता कूदता है

हर डाली बढ़े
 पल्लवित, पुष्पित
 अलग जड़ पकड़े
 अलाभकर देह किसी के लिए किसी की न हो
 रसधार एक हो
 इसी एक जड़ से मिली रहे
 अधिकार से
 प्यार से
 भूमि कटे न किसी के लिए
 कड़ी न हो किसी के लिए
 रस जीवन का, जीवन को बांधे रहे
 घर भर को
 बटी मिली डोर
 यद्यपि सूत्र फ़ऱक़ सभी
 पैबंद यही
 यही है यज्ञ, हवि भी
 यही है वास्तविक जड़ इस विश्व की

● निगाहों ने कहा

किसी की निगाहों ने कहा
आओ
भीतर इसके भरना है
बहुत से मंदिर भी देवता भी
सोचा चलूँ
दर्शन कर लूँ
किन्तु घबराहट बढ़ गई
कहीं इसने बन्द कर लिए पलक
तो
मैं भी-
परियों के देश में
उनके जादुई बापा में
सामा की सरहद में बन्द हो जाऊंगी

फिर कैसे निकल पाऊंगी
नहीं जी
फिर कभी आऊंगी
नमस्ते !

● कुछ नहीं बात

रात
दो मस्हूरी पास पास
अंधकार
सिगरेट का प्रकाश
दो ग्लास पानी
ऐश ट्रे
एक अमेरिकन बैगजीन लाइफ
जो अभी मुड़ा था
इस तरह
दृश्य सनवेदिंग का दिखा था

हल्के पाव
भारी पांव

उठे नहीं
धरे नहीं

निःशब्द
कोई खनक नहीं
कोई झनक नहीं
न कोई बात

खांसी बड़ी
खांसी छोटी
ऐसा भी कुछ नहीं
बत्ती जली नहीं
बत्ती बुझी नहीं
गिलास पानी का भरा रहा

कभी आती थी धीमे से
दियासलाई जलाने की आवाज़
या
सिगरेट
सिगरेट की दबी सी रगड़
कभी
अलसेशियन जाता था चुपचाप
जब रात का पंछी बोला था
आम के पेड़ पर
भूंक कर इसीने उड़ाया था
सुनसान रात
कुछ नहीं बात

कोई नया नहीं
कोई गैर नहीं
केवल सिगरेट का प्रकाश
घनी रात

हवा भी कुछ ऐसी नहीं थी तेज़
हिलता परदा
गुलदस्ता गिरता
कोई चौकता
आता
उसे उठाता
अंकित था न कोई चिन्ह
किसी के आने का
आदी था अलसेशियन ही
पास आने लौट जाने का

● दादी

अमावस रात
हल्के तारों की उजियाली में
नये खिलौने
दिवाली सी दादी को
धेर धार कर बैठ गए
कहौं कहानी
रंग बिरंगी
बहुत पुरानी
नाव पुरानी भरी झील में तैर गई
कंपी पताका सी वह फिर
लहर लहर में फैल गई
काली सुधियां आईं
झाड़ बनी
अधियारे में भूत सी

वह बात पुराने चावल की
लाखों वर्षों में डूबी सुशबू केसर बासमती की
सांस सांस पर
खिली
खुली
गहरे अनुभव लेकर
वह रूप रंग इतिहासों का
सलवट पर सलवट में सिकुड़
ऐंठ गया
वह दूज चांद चमकीले माथे के नीचे
फैता बिखरा
बड़ी आंधियाँ
ज्वार उभेड़े
आकर हैं रुक गए
इन कमज़ोर पोस्त्रों में
उंगलियाँ हिल रहीं
ज्यों कटी पतंग की डोर
इन्हीं से बेष्ठित हुईं
विगत समय की कोर
सूखे पोखर सी
इन मटियाली आँखों के नीचे
देखी थीं वे तस्वीरें
उन बड़ी बड़ी बावड़ी भीलों की
जहाँ पुरनमासी का चांद चमकता
कितने ही राजकुमारों ने खेले शिकार
खेली चौसर
मख्मल से गुल्लाला

फूलों की हुई मौत
 प्यार की हरिणी दौड़ी थी
 तेज़ महक से तर
 वे गुलाब पाशियाँ
 महलों में वीणा वादन
 केवड़े की फलियों सी पांत में
 चलीं दासियाँ
 कहो कहानियाँ
 खण्डहरों की
 आगे के युग की
 दक्षिण से फिर धूल उड़ी थी
 एक बार मीना में ठेस
 जाम में कटुता
 मय में धीमी आग लगी थी

हर हर की हुंकार
 ओम नाद सी गूंजी थी
 फिर फळदों सी उत्तमी वातें
 नहीं समझ में आने वाली घातें
 उठे ग़दर में उन गोरों की घातक
 विष पुड़िया सी आंखें

इस अंधड़ में
 काल बवंडर में
 मिटे
 अनूठे दुर्ग
 जूझते सिंह

मृदु शावक सोते
कटीं सभी की भुजबल पांखें
हुईं युगों तक बन्दिनी रातें

हवा में कब जमी भाप
कब गिरी वरक़
तूफान का उठना जाना
खेली हो इस बार आग से
उस बार वरक से
और शून्य को लम्बे तिनके सा बढ़ते भी
तुमने देखा है
क्यों चुप हुई अचानक आज, बोलो
इस युग पर जो कसी ग्रन्थि उसे भी खोलो,
बूटी शीघ्र नहीं लगातीं घिस कर
अनुभूति की भभूति—
ये युग
पथ खोए बच्चे सा इसी तिराहे पर
बैठ गया है
इस युग आडोलन में
चूने की मूठी सी बैठ गईं क्यों मौन
आते हैं क्यों बनी बड़ी बड़ी
बावड़ी झीलें
डबडबा आईं
अधिक प्यार से या
मनस्ताप से
सितारों सी क्यों बरस पड़ीं
इस अमारत में

काले बालों ने आखिर सुन ही ली
सोने चांदो के तारों से बीती
अमर कहानी

● भविष्या

एक मात्र तुम कौन
कौन तुम मौन
आस्थाएं अंधी
निष्क्रियता
जर्जर रुण संस्कृति का
फिर से
समाधान करने
चेतना देने
निर्णय देने
दायित्व, सशक्त जिदगी का

भूठी-सी छाया
अन्तर्विरोध का चित्रण करने
विश्वास, भ्रांति

दो अलग-अलग पहलुओं की
 संभाव्य भविष्य में
 सीमा निर्धारित करने
 निश्चित रूप भरने
 जगाने चली आईं
 शंख बजातीं
 घंटा रव करतीं
 युग परिवर्तन को है

एक बार चेतना
 फिर से कँपकँपाई
 सारी पृथ्वी बौखलाई
 प्रकृति सब थरथराई

घृणा की गहरी खाई
 वर्वरता के पर्वत
 रक्त की नदियां
 अणु का ह्लास
 अकाल, बाढ़
 विनौने पथ पर बढ़ते-बढ़ते
 बड़बड़ाई
 हर पग का पत्थर एक हृदय
 हर काली छाया एक प्रलय
 कालिख-पुती धरा पर
 एक किरन
 तुम कौन
 कौन तुम मौन ?

चांदनी चूनर



● रात और बात

कहां से कहां तक की उठाई बात
लो हारी
सकुच कुछ और भी गई
ये रात
तहों में लिपट चलीं बातें
छोटी हो गई रातें

खिच चलीं सूत-सी लम्बी
बन गई पूनी हल्के बादलों की
कली फूल डाल
बून दिया सलौना बख
तारक छांह सजाई
रंगरेज ने धनु रंग घोल सारे, चूनर भिगाई

और लगतीं अधिक मीठी
पिछले दिनों से
आज की ये चांदनी रातें
बढ़ चलीं बातें

ये
दीप
इसी से युगों की चांदनी है
रवि कांति
अंधकार की गहराई
नहीं इस दीप की चिरस्वामिनी है
ये मनद जलता दीप अपने आप

मधु जुन्हाई में मिला दो
ये मिला अवकाश
जो स्वर्य ठहर गया देकर अनोखी प्यास
गत्, भविष्यत, वर्तमान का
अमिय रस उंडेल सब
इस दीप में
आस्था भरा ये दीप, उजली रात
आज की ये बात ही अब
वर्तिका-सी दीप में
जिंदगी भर
जिंदगी से वियोगित होकर भी जलेगी
जब ज्यों समय चलेगा
पांव धर ये भी
सुरभि-सी बहेगी
ये हमारी बात सही तुम मान लो

इस स्वयंप्रभ दीप को
पहिचान लो

इस मन्द जलते दीप के आलोक में
है छिपा निबिड़ अंधकार
मन्द जलते दीप से हारा
मुगों युगों का प्रकाश
सहज ही पी लिए इसने
न जाने कितने निकलते प्रात
कितनी समाई रात
कितने अंधड़ों का इसने भिगोया गात
न समझो व्यर्थ की ये बात
व्यर्थ ही निकल गई ये सुनहली रात

ये दीप
पुष्प हैं
यही केन्द्र पराग
जिससे मिल रहे अजीवित भावनाओं को
समुज्ज्वल प्राण
अरव रवि के मे
रथ सुगति पर
मंद केतन
उड़ता हुआ
धरा से आकाश तक की लहरियों से
घुला मिला
बिछा रहा आलोक कण
किसके यश-सरोवर में कमल लगा रहा

रात और बात

इसे पहचान लो
जिससे उठ रही धीमे सुरभि सिक्क बयार

कहां से कहां तक की उठाई बात
लै हारी
सकुच कुछ और भी गई
ये रात !

● बादल

आकाश पर बदली
भारी बादल
हल्के बादल
घिर रहे
अब वर्षा आएगी

फिर बादल खुलेंगे
धूप दिव्य छाएगी
पर ये भी तो सम्भव हैं
बादल घिरे ही रहें
कभी खुलें ही नहीं

● बरसाती नदि

आयति की सोची नहीं कभी
आयत्त किसी के रही नहीं
मनमानी भरी
मनमानी चढ़ी

छोटी उम्र के चांद ने सभी रस पाया
अन्तर में बहुत कुछ छिपाया
रस्त प्रसूति
बंजर
आभीर पल्ली
सभी को डुबाया
मीलों भरी छाप नाप का
कहीं चिन्ह भी न पाया
न कभी अन्तर में झांका

न अवकाश ही पाया
कुछ क्षण का ही सही
मद लुटाता
प्रलय मचाने वाला जीवन
दो क्षण का सुख
वही सही
पर कैसा
जो बहुत कम को मिल पाया

● गाड़ी

धक्का खाकर चली
धक्का खाया तो गिरी
ऐसी कैसी गाड़ी
गाड़ी तो गति है
यति नहीं
श्रम का भान
कैसा विश्राम
जो पड़ाव पर ठहरे कहीं
वह गाड़ी नहीं

● यात्री के दिवा स्वर्ण

गाड़ी

धीरे-धीरे चली

वृक्षों की पांत मिली

छांव धनी

कच्ची राह के गढ़े

भाड़

चिड़ियों का शोर

नाचते मोर

बेरी, करीदे

गीत

मस्ती

वायु की चाल रुकी भी भली लगी

गाड़ी धीरे धीरे चली

दिखी धूप
बढ़ी ऊब
हड्डबड़ाया, घबराया
उठ बैठा
ऐंठी पूँछ बैलों की
गरम हुई गैलों की
धूल, कुछ अधिक बढ़ी, अधिक उड़ी
जितने ही बैल बढ़े
उतने ही भाव भरे
जहाँ जहाँ थे गढ़े
फसल पकी
जितनी थी धूप कड़ी
गिरा पसीना
दिखी हसीना
अब घर की सीमा
गाड़ी को केर दिया
बैल सुस्ताए
ओंघाए
सांझ
छप्पर की छांव

● सूत्र

दौड़े तो
कहलाए घोड़े हैं
रुके तो
राह के रोड़े हैं
पहुंच सके अपनी मञ्जिल पर
ऐसे बहुत थोड़े हैं

● सत्र

दिन दो हैं
विशेष जीवन के
एक
जिस दिन उत्पन्न हुए
द्वितीय काल कवलित हुए
शेष तो दौड़ रही लम्बी
कहीं पड़े चित्त
कहीं उठकर खड़े हुए

● सत्र

कठिनाइयां

श्रेष्ठतम जीवन की इकाइयां हैं

जीवन चटियल नहीं

पगड़ंडियां हैं पहाड़ियां हैं

उरीं

बढ़ीं

गिरीं

बीज, वृक्ष, फल की कहानियां हैं

छूटी कहीं नहीं

ये ही लौट-फिर बन जातीं

सतरंग धनु

स्वर्ण थालियां हैं

● सूत्र

आघात
भारी आघात
चोट
रक्तपात, विषाद
वक्त ऐसा हो
कहीं कुछ नहीं कैसा हो
वर्तमान
गत
भविष्यत्
सब वैसा हो
मन जैसा हो

● कुर्सी

कुर्सी का श्रेय
बहुत बढ़ गया
मुग मुग के ऐतिहासिक चिन्हों में
इसका भी पैर गड़ गया
मामूली-सी कुर्सी
चीड़ की
शीशम
हाथी दांत की
वेंत से बुनवा लो
रेशम से गुंथवा लो
सोने-चांदी से मढ़वा लो
दाम
असमान
काम एक समान

इसकी शान
आसमान का सूरज
ईद का चाँद
इसको जानता है वखूबी
गाँव का किसान
जितनी ही बड़ी कुर्सी
उपरी मिठास
भीतरी तुर्शी
भरी है विद्युत जितनी
काहिली या सुस्ती
सब टकसाली है
टकसाल में ढले सिक्कों-सी एक-सी गोल
कोई चांदी ठोस
कौई रांगा
रोल्ड गोल्ड
कुर्सी बोलती है
चढ़े रिकार्ड-सी
कुर्सियां नाचतीं तो टकरा जातीं
टकराना इनका परस्पर
खतरनाक
न रहती नाक
पानी बड़े बड़ों का उतर जाता
चमक का मुलम्मा शीघ्र धुल जाता
ऊँचे कोई चढ़ जाता
सिर पटक कोई रह जाता
दोष किसी का किसी के सिर मढ़ा जाता

बड़े बड़े प्लानों की फ़ाइल

चूहा कुतर जाता

कागजी लड़ाई में

उजला भविष्य रुक जाता

कुर्सी का भी अपना भास्य है

कहीं सुनहली मोहरों ने ज़ंग खाया

टीन के टुकड़ों ने कहीं

नाम कमाया

कभी अधिकार बहुत-से मिल जाते

कभी हाथों के तोते उड़ जाते

नीचे की कौन कहे

उख्ते ऊपर तक उलट जाते

कुर्सी एक अजस्र धार है

ऊपर से नीचे तक

एक वही तार है

ज़रा छुओ

करंट लगता है

चमक उठता जब अचानक कोई

मक्खन वहीं पड़ता है

मानव मन भी

मशीन पर बैठते ही

यान्त्रिक हो गया

लाल फ़ीते का

मकड़ जाल

चारों ओर कस गया

कुर्सी

चेतन यहाँ जड़ से ऐसा
बंध गया

गति ही गति
मति कुछ नहीं
देखती मानवी आंखें नहीं
हैं और की आंखें
हैं और की जबान

कुर्सी का ध्वेय तब
कुर्सी का श्रेय जब
जड़ फ़ाइल में भी चेतन बोले
मृत काठ नहीं
जीवित इन्सान ही उसको खोले
मानवता की गोमुखी से
नई धार का प्रसरण हो
भागीरथी का अवतरण हो

● समाज-ऊत्सर

उस वीज पर बहुत भरोसा था
सख्त जमीन को तोड़कर भी
निकलेगा

लगाएगा वृक्ष
फलों के सुखदायी
किन्तु
यहां बबूल भी नहीं
दातुन को

● नए जुआरी

मिले थे दोस्त रात
बहुत ऊँचाई से की बात
अबकी
चून चुन के बेदाग़ा चाँद
लगाए हैं
रहेगी चाँदनी ही
न होगी अमावस रात

अब की जौ मिले
कुछ न बोले
काट गए रस्ता
हाल था खस्ता
कारण
(सिक्योरिटी तक जब्त थी)

चाँदनी चूनर

● नई कसौटी

क्या ये
हवाइयाँ हैं
नहीं जी
रुबाइयाँ हैं
खलेष, यमक, अलंकार में भीगीं

बेहतर तो ये था
होतीं ये सुराइयाँ
पानी की
काम तो आतीं

● जीवन : एक अछूता आयाम

मुक्त कर दो बादलों-सा
उड़े जीवन
अटकाव, रोक-टोक न हो
ढाले मनोनुकूल अपने को
निर्भर-सा
पहले धार पतली
अत्यधिक फिर
और फैले
चढ़े नदिया-सा
बढ़े फिर बाढ़-सा
कसे रहें ये हाड़
और अंत तक मुख चाँद-सा
मिले सागर से ये जीवन
उठी हुँकार-सा

अर्पाहिज, पराश्रित, पूर्व निश्चित
भाय तब क्यों हो
रंग हूँ साकार
लय ताल से तन विलय हो
न पतभार-सा
न उतर जाए किसी के हार-सा
न देखे कूल की भी राह
निरुद्धैग तब क्यों हो
वेग पर
मंझधार पर
अपनी चरम उठान पर
खलबलाती तर
मस्त लहरों पर
पूर्ण भीठा चाँद बन कर कंपकपाए
ठहर जाए
बूँद भी न ढलक पाए
रवि तेज न नत हो
न विश्राम पाए

पथरों में पला जीवन कठोर है
काजल को भीचे, धुएँ को घेरे
बैठा तरुण भोर है
क्यूँ थके
पंख टूटे विहग-सा
अर्पाहिज, निश्चेष्ट
न पराश्रित हो शिशु-सा

जीवन ! अनुदान ?
चाह ?
याचना ?

शक्ति स्वयं की है निर्देशिका
उज्ज्वल पथ वरण
प्रवेशिका

आंदनी चूजर

● कोयल पिंजरे में पकड़ पाई

चली आई बेला सुहागिन
पायल पहिन
पगधनि भीठी-सी धीमी-सी करती
मदिरा चिलाती
भूम भूम भुकि भूलती
प्यार के हिंडोले में
नींद के झकोले लेती
वाण-विद्ध हरिणी-सी
बांहों में सिमट जाने की
उलझने की, लिपट जाने की
मोती की लड़ी समान

मांग में सेंदुर भरे
दूर दूर की वह

धुली धुली सी सुहानी धूप
आनन में समेटे
बरसाती श्यामल लटों से सजे सजे
हिम श्वेत पग पर
गड़ाए निज नीचे नैन
पुलकित कूक
बंद किए मंद ओंठों में
आङ्ग पर कुहकती कोयल
पिजरे में पकड़ पाई

जीवन के बड़े बड़े नक्शे
फैल गए आगे
जो मुदे थे अभी
आज निकल आए सभी
हटते ही लजीला घुघटा
नक्षत्र-से चमकते अंग
आँखों में नशा लाए
दूर की मिलन वेला
आज निकट आई

● होली

होली की तीर समीर
फूलों कलियों को मींज मींज
डाली वेलों के बीच चली
ग्रांचल खिसकाती साड़ी के
भर चली धूल से धरती का आनन सुन्दर
रंग में रंगती
नभ, पृथ्वी, एकाकार
देखो
बादल के टुकड़ों से रंग-वस्त्र को चीर
उड़ी जाती है आगे आगे
जहाँ होली में भूला भ्रम
क्षण भर को
मस्ती में
शर्म, लाज, ऊँचनीच, सम्मान, मान

अभिन्न सहज स्पर्श
सभी समान
मचा रहे हुड़दंग
उड़ रहा रंग
तीर सी समा रही तन में
रानी के मन की भाव रेख भी अधिक
खिची बढ़ी जाती है
चित्र बना जाता है अनुपम
पिचकारी की धार रसीली
निखरे बिखरे सब अंग अंग
ये तो
बाहिर का कुछ भाग बना है
उभरा उभार वायु का सुरभित
पूरा होते होते चित्र अभी फागुन का
कुछ मीठी सी देर और बाकी है
भीगे जल से तन
रंग से सीचे तन
केसर से
टेसू से पीले तन
अबीर गुलाल से छोटे कन
फूला मन
कहाँ बिखरकर
रानी के उदास श्वेत गुलाबों पर
गुलाबी अंकन
ला पाए हैं
फागुन की इस रंजित ऋतु में

● चिनार की धाटी के दुकड़े

निकल रहा था सूरज
उषा की फैल रही थी
चमकती बरफ पर रोली
उत्तर रही थी सुख्ख सेहत
पेड़ पत्तों फूलों पर
सफेद, ऊदा, लाल
उड़ रहा था इस डाल से उस डाल
बिखर उठा था मनोरम हश्य
हिमाचल की स्वतंत्र वादी में
घने वन में
जो ढकी थी लंबे शीशम से
खड़े थे जहाँ देवदार कुंजों में
हुआ मद्दम शोर
उन चिहुँकती चिड़ियों का

मोर के पखें भी
 चुगने को दूर गए
 अचानक रुक सक के चलने लगी हवा
 पत्ते भी डर डरकर खीचते थे सांस
 चुप थे खड़े लंबे शीशम
 देवदार का कुंज भी कुछ सोच रहा
 जैसे कोई जादू डर का सहम का
 उन पर चढ़ गया हो
 वातावरण को मिली आज्ञा तूफान की हो
 सभय को तूफान का भान ही हो

हजारों पांव साथ बढ़े
 हजारों हाथ साथ पड़े
 कट कटकर गिर गए शीशम
 कुंजों की जगह हुए गढ़े
 स्तब्ध, सुनसान चीख उठा
 कांप उठी वादी भी
 जब कुल्हाड़े तेज़ चले
 वह शब्द कुल्हाड़ों का ठकाठक
 सुनसान को चीर बढ़ता ही गया
 भरता ही गया कोनों तक
 फैल गया मीलों तक

पांच नदियों की मिली पंजाब
 दूर सुसुराल से आई हुई
 गले मिली
 वहिनों के गीत सी

धरती मिश्री सी
वहाँ के पानी में घोलती थी
उस पानी का पला गेहूँ
मिट्टी का बढ़ा गेहूँ
अपना सा सुनेहरापन बख़ेर देता था
मुख पर उषा के सांझ के
सुट्ट़ शीशम से
ऊँचे देवदार से युवक
उठते थे बढ़ते थे
धरती पर चलते थे
स्वतंत्रता भारत की
रंग वशों का इकट्ठा लाई थी
जो हुलक पड़ा था
येड़ पत्तों फूलों में
भूम उठे थे
किन्तु तूफान जो छिपा था
रंग लिए काले भीतरी पदों में
श्मशान बना डाली
पांच नदियों की मिली पंजाब
रंग सभी बदल गए
बदल गया चित्र भी भारत का
हो गया एक अंग ही भारत-सा

● लीडर का निर्माता

सजा है
रेशम के पदों से ड्राइंग रुम
सोडे से, फिनील से
और गरम पानी से
धुल रहे बाथरुम

टावल रुँए का हाथ
लांड्री धुला गोरा
कोठी से निकल रहा बैरा

चपरासी कसे बैल्ट
सेक्रेटरी लिए डायरी
गेट पर कार खड़ी
लोगों को इंतजार

कौन आ रहा

लीडर आ रहा

कौन है जा रहा

सड़ी है गली टपरे सी

टपरा सड़ा है घूरे सा

बम्बा है पानी का

घर से बहुत दूर

दूटे घड़े हाथ में

काई चढ़े

निकल रही छिपकली सी

लड़की दरवाजे से

गली का पिल्ला बन

फिर रहा बचा

लिए खाली बोतल

मिट्टी के तेल की

कूड़े से भरी गाड़ी

खड़ी है गली के बीच

भंगी का इंतजार

गंदगी का संसार

जिसमें है बोल रहा

मौत के सिगनल सा

भोंपू दूर मिलं का

भूखा ही

कौन है जा रहा

लीडर का निर्माता

● दो शब्द चित्र
: परिवृत्ति :

दो पेड़ों के नीचे
पीपल और नीम के पीछे
झखे का बड़ा कुआँ
उसको चौड़ी मेंड़ पर
और कोई नहीं
मीसी, काकी, भूआ
या कौल का भाई
पुकारे का भतीजा
रंगीली प्रणाली ये पनघट की
संख्त लड़ाई महाभारत की
कभी चुहलबाजी तलछट की
इनके तेज़ रंग रंगे कपड़े
केलिया के फूल से लगते

लाल पीले चटक
गुच्छों से सजते
रस्सिएँ कुड़ली मारे भुजंग सी बैठीं
चमकती, मंजी, साफ कलसियाँ, टोकनियाँ
सर्प मणि का आलोक लिए
दूर से दिखतीं
और फैले दूर तलक लंबे सांप
मणियों वै भपटते या
नीचे को लटकते
पीपली से पीपल टपकते
नीम से पखेण बीट भी करते
जो कुएँ की लाल मेड़ पर रूपये सी श्रंकित
हो जाती
किसी पनिहारिन को सांझ समय कुछ
शलतफ़हमी भी हो जाती
हँसी का थूं भटका लगता
समय खुशहाली में कटता

उधर कुएँ में टकरातीं परस्पर
गगरियाँ, टोकनियाँ
भमक जैसे गहनों से लदी
ब्याही बेटी
मिल रही कुठरिया में
पी के जाते में
नीर गिराती

नल-कल दस पांच
 लग गई हैं क्रसबे में
 पनघट की रंगीनी, जीवन
 सिमट गया ज्यों तसले में
 हिलती बहँगी की गति दबाव
 कंधों का लरजना
 पनिहारिनों का
 अटक अटक के चलना रुकना
 लहरता तन
 आगे कभी पीछे मुड़ना
 व्यायाम
 काम

अब खड़े हुए आ पांत में
 पतझर के पत्ते से
 टूटे कनस्टर या पिचके डालडा के टीन
 उठाने वाले जिन्हें
 मरियल घोड़े से
 कसे जीन
 सजल मटकियाँ
 चमकती कलसियाँ
 काई का ओढ़ना ओढ़े
 कुछ नंगे बच्चे नाले से निकल
 चूहे से उस तरफ़ दौड़े
 सुबह की टैम थी

भीड़ बेहाल थी
ज्यों किसी मुवा की मौत पर
इकट्ठे हों
निराशा और प्राथमिक ज़रूरत का अभाव
मुँह बेरुत्रत
रुआसे से
कपड़े मैले फटे, कोढ़ के चकते से
नागिन सी फुफकारती थी
नल कल
सूँ ऊँ पुनि बार
न पानी की धार उतरती थी
न भीड़ सिमटती थी
कोई कहता था नलकल में
छिपकली चिपटी थी

देख यूं हुज्जत भगड़े
पटे कुएँ की धास
तिलमिलाती थी
श्रम से बुझती प्यास
मानव-जीवन
नहीं धास

● अन्तर-तथ्य

कमल खुला
उधर गगन में रवि सुख धुला
इधर कुमुदनी विकसी
जब चंदा ने तारकों को धीरे से छुआ
इस वैभव के हाथ में सुन्दर
और सिकता यश लहरी में
कुछ तारक फूलों ने अश्रु गिराए
ये सहिष्णुता के मोती थे जो
दुलराए
या
विद्यमनों की ऊण आह ने
भीतर ही अंगार बुझाए

चांदनी चूनर

● गलें फिर हिमशिखर

गरम हैं दिन
चमकता तेज़ सूरज
धूप उसकी
घरा के दिव्य रिफ्लेक्टर से टकरा
गलाती गरम चाँदी
पसीना छूटता है
जलते हुए ईंधन के रस सा

गर्मी बढ़ रही है
गरम हैं दिन
ढके हैं घर महल
गहरे चुने रंग से
पड़े रंगीन पद्म
लगे खस के सुगंधित नरम टटू

चू रहा ठंडा सुरभिमय मौन पानी
 और सरसर बह रही है
 शीत करती उस महल को
 हवा जो बाहर गरम है
 हो रहे हैं वस्त्र ठंडे
 हो रहा ठंडा बदन
 बरफ में ज्यों दबी हों
 बोतल सुनहरे शरबतों की
 हृदय ठंडा
 रक्त ठंडा
 श्रौ, न गर्मी रही इतनी
 देख ले जो
 दहकते अंगार को
 जो कि बढ़ते आ रहे हैं
 जो कि बढ़ते जा रहे हैं

आज बाहर
 गरम सूरज फेंकता गर्मी
 चिलकती धूप खेतों पर
 बोते बीज खेतीहर
 गरम लोह से सीचे विटप सारे
 कि जिनके शरबतों से
 हो रहे हैं महल ठंडे
 गरम हैं चर्म उनका
 जो स्वयं विद्युत की कल हैं
 चलाते हैं हथौडे
 कि लोहा टूटता है
 जल रही हैं भट्टियाँ

उगलतीं ग्राम जो सूरज से ज्यादा
गरम है कारखाने
कि जैसे दिन गरम हैं
चमकता तेज सूरज
धूप उसकी
धरा के दिव्य रिफ्लेक्टर से टकरा
गलाती गरम चाँदी

कि जिससे हिम शिखर जो जम गए हैं
कड़े जो पड़ गए हैं
बन गए कृत्रिम हिमाचल
जमे लोहू
बरफ़ दिल से
फूटे नई गंगा
चले फिर सलिल ठंडा
फ़सल देता हुआ हर ग्राम को घर को
नगर को
कि ज्यों हिमखंड से पहिले बही
भागीरथी गंगा

● बस स्टैंड

सांझ

घर में सुनसान
बच्चे चले गए थे खेलने
आफिस भी बंद नहीं हुए थे
खिड़की से देखा बाहर मन बहलाने
सैकड़ों ही साइकिलें
बीसियों रिक्शे तांगों की क्रतारें
चमकीली परियों सी उड़ी जाती थीं कारें
जिन पर आँख भी ठहर न पाती थीं
दूर से आती हुई बस मंद हुईं
पहुँच रही थीं स्टैण्ड के करीब
जहाँ लगा था लम्बा क्यू
पहली बस के चले जाने से भरी और भी
रहते थे कुछ छ्यू

लाइन और बढ़ी—

जिसमें

कुछ तो खड़ी थीं भुकी डाल
भुकी बाल की तरह
रंग लिए सुनहरा
किरणों में मिली
हिल रही थीं पल इधर पल उधर
बुलबुल की तरह
चुलबुल कुलबुल कर रहीं
कबूतरी के बच्चों सी
अभी ये अधपके संतरे की फांकें थीं
खट्टी मिट्टी आँखें थीं
दसवीं कक्षा से नीची
खड़ीं थीं बस के इंतजार में
घर जाने की राह में

उनको भीनी सुगन्धि से अलग
रूप तन से फरक
तरबूज़ की फांकों से लाल ओंठ
टमाटरों से मुख धुला
पके कश्मीरी सेब का जिन पर रस पड़ा
लचकतीं पतले गन्ने की तरह जो
हर गांठ पर
हर जोड़ पर
हर मुस्कान पर
ज्यों मद भरा घट उलट पड़ा हो
एक अजीब जादू

स्वयं वेष बदले खड़ा है

वहीं खड़े थे पास में
हररिंगार, गेंदा, सदाबहार जो
तोते की तरह उलझने आते
रस भरे भाड़ पर
हरे भरे झुंड पर
इनके काले बाल रेशम के फन्दे से
जिनमें मधुमक्खियाँ फिसलतीं थीं
चाल में मदन भी हार गया
तीर कुमुम के पार गया

इधर मरुभूमि का वृक्ष भी
खिसियाता-सा कुछ
टेढ़ा शिथिल
गिरता सा अड़ा
बालू सा गरम माथा
ओंठ सूखे पथर से
काठ सा धुना हुआ शरीर
जान जिस पर चिपकी थी छिपकली सी
कर्ज़ की बढ़ी नुकीली सुई
जीवन में लगी
खुले रहते सदा खाली हाथ
जिन हथेलियों ने गरमाई कभी जानी नहीं
आई मुसीबत चीर जो
निराली हँसी
भूडोल किसी ने कहा
दरियादिली गरम तवे पर

पानी की बूंद सी सूख गई

ये हैं
मरुभूमि का वृक्ष
आफिस से लौटता हुआ बाबू
स्टॉप लिखे स्टैण्ड ही को पकड़ सका
जो बस पर भी ठीक से चढ़ न सका

और

इसी समय
दरवाजे पै स्की कार
हो गया था आफिस बंद सबेरे का खुला
खिड़की खुली ही रही
हवा भी आती ही रही
न जाने कब तक
न जाने कब तक

● एक अनुभूति

जी की जलन
घाव की कुलन
दोनों समान हैं
खिच्ची कमान हैं
जो छेड़ेगा वो बिधेगा
ये ऐसा दुख
बिन छेड़े भी दुखेगा

● नीम के फूल

भूला पड़ा है बड़े नीम
उठ रहे बढ़े रहे पींग
तरकश से निकलें ज्यों तीर
कमर पतली पर ज़ोर लगावे
धनुष सी धुमावै
पींग और ऊपर को जावे

घटा घिर रही
पीहर से आई अभी फिर रही
बिजली भरे ये गीत
कौंध कौंध जावे
फैले बयार से
उठे कगार से
तरंग से

चढ़े मृदंग से
मर्दनि में लहर सी आवे
लपट सी आवे
नीम तले जाने को
बड़ा जी चावे
बड़ा कसमसावे
गुड़गुड़ी भी रुक रुक जावे

बिछौना बिछा नीचे ढूब
हरा लाल पल्ला सलौनी का खूब
नीम के फूलों से भरभर जावे
कड़ुई निवोली बड़ी भर भर जावे

सासू जी के दाब दूँ मैं पांव
खूटी पै बैठ कऊआकरे कांव
छोटी ननद ने कहे जो हमें बोल
बेसरम घूंघट रही काहे खोल
सामने जेठ जी ठाड़े
कड़ुई पाती से लागे
थू, नीम की पाती से लागे
गोरी जिठनियां बैठी नयन चलावे
जी जलजल जावे

हरी तरोई के बड़े बड़े फूल
चमकते कनफूल
पिया के नयन ही दो

डोलते हिया पै किश्ती से लागे
उनके कहे से जी जाऊँ
उनके कहे से मर जाऊँ
वही हमारे तो सब कुछ लागे

● काले मेघ

काले मेघ
कोयले के पहाड़
रेल के धुए के गुब्बार
घिरते आओ
बरसते आओ
रई के गाले से हल्के
लिपटते आओ
फैलते सिमटते धुमड़ते आओ

बड़े नगरों में
विचके कसवों में
छोटे गाँवों में
हर तिमंजले घरके ऊपर
हर छोटी छत पर

हर छप्पर पै रुकते आओ
आओ मेघ आओ

कालिदास के मुग की तरह
पाती संदेश की ले जाओगे
या शिवाजी की बढ़ती हुई सेना की
धूल में खो जाओगे
हाँ-मुग की नायिका सीता ने भी
तुम्हें याद किया था
तुम्हारे गर्जन से भय लगा था
विरहिन का हृदय कँपा था
आज भी दूर बहुत दूर
प्रिया देख रही तरसाई आँखों से मधुमय तुमको
आज भी ठक ठक है चलती हुई भारी फौजों के
बूटों की
पर मेघ तुम्हें दूत नहीं बनाना
आज खाकी वर्दियों की धूल में
न खो जाना
आज एटम का धड़ाका तुमसे ज्यादा
उसका आतंक भारी है
वह रास्ते में दूत तुम्हें कुचल देगा
उसका उठता हुआ भयंकर धुंआ
धरती से उठी धूल को भी मसल लेगा
फिर भी तुम आओ
न कांपे विरहिन न सही
तुम उसके घर पर ठहरते आना
खिड़की से झांक कर आना

तुम्हें देख शीतल हो उसकी जलती छाती
वो ठगी सी देखती रहे तुमको
एक चिन्न बना देना
कुछ क्षण को ही सही
दिल बहला जाना

न सही
कालिदास
तुलसी
भूषण
आज भी आओ
काले मेघ सजल श्यामल
सघन, नवल
काले कमल
मेरे देश की सूखी वनस्पति हरी करना
काली बहू सी धरती पर
गहनां की चमकन्सी
बिजली भरना
नगर के सूखे उपवन सदा
फूलों से भरना

आओ काले मेघ
तुम हमारे मेहमान बनो
किन्तु इतना न बरसना
बाढ़ आ जाए
मेरे गांव के छप्पर, घर वह जाय
मिट्टी की खड़ी दिवारें, खपरैल ढह जाय
इतना न बरसना

कि

नदियाँ नगरों को सुला लें
अपनी गोदी में करोड़ों को बुला लें
तुमसे सब डर जाय
भय खाय
तुम्हारा नाम भी न लें
ऐसा न करना
ए मेरे
मेहमान
एटम के धड़ाके के पश्चात् भी
तुम रुठ न जाना
मेरे देश से हूर न जाना
काले मेघा !

● पूजा

पूजे सांप
कुछ मिले इन्हीं से वरदान
कांपे पांव
मन विद्रोही बोला
थोड़े से सुख को
खोता है अपना धर्म सनातन
श्रविरत ज्ञान

पूजे पस्थर
रोपे पुष्प
यश गान सुनाए
मन विद्रोही बोला
क्या इनके भी हो सकता अन्तर
मत पूजो पस्थर

पूजे चित्र
संलग्न स्थिर
मांगा प्रसाद
मन विद्रोही बोला क्या किया
अब होगा सर्वनाश

पूजे भाव
बड़े चाव
बहुत दूर तक बिछल चले गए
मन विद्रोही बोला बड़े चतुर बने
खो दिया गांठ का भी सब अपना
मत देखो सपना
फिर तो कभी न पूजे सांप
न पूजे पथर
न पूजे चित्र
न पूजे भाव
पूजा कर ली अपनी ही फिर
मिटे उसी क्षण जीवन भर के सभी
शाप

● जल-चांद

कुछ
आंका
आकर भाँका
ये
वनस्थली
पुष्पों की झरन
घन मिलन
ये निकला चांद कभी नहीं मुझे भाया
नदि का तीर
बहता नीर
हूँक पीर
जीवन के बहाव में अवरोधी चट्टान बन
क्या समाया
अजस्र धार को छितराया

मेरे जल में क्यूँ पूर्ण चाँद डगमगाया
नहीं ये तूफान
कुछ नहीं लाया
न सीप न मोती
लहर कुछ कमल यहाँ बोती
कमलों को मोह
यहाँ का बिछोह
कहीं कुछ भी तो नहीं
फिर क्या ये सपना जगा था
ये निकला चाँद
कभी नहीं मुझे भाया

● अहं का सोख

सख्त
सुदृढ़ बाह्य
अन्तर ज्वाल
तहों में दौर्बल्य
बहुत सी प्यास छिपाए
उमस
भभक
श्लेष बनाने ही में जीवन को
कौशल चातुर्य
तुम जिस तेज के इच्छुक
ऊष्मा वही लील रही
सोख रही तुम्हारी
उर्वर धरा का रस सारा
तुम दिन प्रतिदिन हो रहे बंजर वंध्य

व्यक्तित्व का भूठा दंभ
अहं घटाटोप
बना लिया जिसे एक कोहनूर
वह भी सदा ही हुआ चूर
लाख इकाइयों में क्या
एक ही इकाई
इस अखंड खाई को रही पूर

मीठी ऋतु का अनूठा योग
समरस ऋतु की सरसता
कीच कमल की सी पारस्परिकता
विलगता
क्या नहीं श्रेष्ठता
सीमाबद्ध दुर्दशा तुम्हारी
अंकुर फूटें तो
खिले खुले विकसित गंध
काई पर जीवन चले तो
कीच से कमल खिले तो
तुम मात्र विश्वास हो
भूठे सूर्यों के चाँद के
जो असलियत से दूर
वहुत दूर हैं

● कौन सी ऋतु आई

छिप गया चमकीला चांद
घुंघटे में
उकसे अंकुर
विकसे फूल
रस की भरी गगरिया
भरे जल कलस
नहाई वसुन्धरा
पहिरा धानी दुकूल
वृक्ष, पल्लव
कहाँ थी छिपी ये धानी चुनरिया
जो धीरे से स्वयं उग आई
ऐसी कौन सी ऋतु छाई
परती धरती भी श्यामल नववधू सी शर्माई
सघन कुंजों में

कौयल की स्फुरित गूज
कुलवधुओं के गान मीठे
भर देते मन में कुहक
घन घहर घहर
विद्युता लहर लहर छितराई
कौध कौध चकाचौध कर अति सुहाई

इंद्रधनु धरा पर उत्तर पड़े
प्रस्फुटित जलजाल
जल की बहार, बौछार
नयनों के बाण नदि के तीर से
कस चले
भर चले
ऐसी कौन सी कृतु
इस क्षण उठती ऊदी, काली घटाओं में
समाइ
मन की बेल चढ़ाई

● मेघ-जीवन

लघु बादल के काले टुकड़े को
नभ पर छाते देख रहा हूँ
इसका ये प्रसव-कान है
अर्पण फल
समर्पण धरती को
आया है
चाह प्रपीड़ित सरसाया वरसाया है

इन भाड़ों में
कुछ वर्षों के उगे हुए इस तरुण अरुण
नए वृक्ष को देख रहा हूँ
जिसका पहिला नया फूल
फल की आशा से उन्मत्त भाँक रहा है
कितनी सीढ़ियाँ चढ़ उतर हर्ष भरा

सफलता के उन्माद से उमगाया है

बादल के इस लघु टुकड़े को
तेज पवन का एक ही भारी झोंका
क्षण में रुई सा धुनक धुनक विलय
कर देने में समर्थ
और इस नए वृक्ष का जीवन भी कैं दिन का
आसपास की हरियाली ही इसको
लील ले
दीमक इसको छीज दे
किन्तु ये असमय का ललकता अंत
अंत ललक
कभी नहीं
ये ही तो जीवन है
जीवन की विद्युता
जन की समग्रता

● भीगी है बात

भीगी है बात
भीगी है रात
भीगी है पास की अमराई भी
पमिहरी फिर रही इधर उधर घबराई
बौराई सी
चाँद बादलों में से
अभी तक निकल क्यूँ नहीं आया
भटक गया कहीं भील के कगारों में
अटक गया दूर गई नावों में, उड़ते हुए पालों में
अस्फुट गूंज
अनुग्रंज ही
दूर की लहरों पर ला रही बात
परियों की छायाओं से कोमल आरक्ष
उगे पात आस पास

सो रहे फूल भी सभी
करते थके इन्तजार
स्वेद कण भलमलाए ओस कण से भाल पर
कर याद भर अबेरी की
अनायास हुई देरी की

भीगा मन
उलझा तन
सुधि के सहारे
आसमानी रंग

धरती का रस
मिला जुला हास विलास
सब तुम्हें अर्जित समर्पित
जीवन की सारी मिठास तुम्हारी
अंधियारे की वे भूत रूप आकृतियाँ
बेढ़ंगे बोल
स्वर डरावने
डरी हुई सी कालिमा सिक्क परछाँइयाँ
वे भी जो जीवन के साथ साथ आतीं
वे सभी मेरी हैं
हुई जो देरी है
उठा रही क्षण प्रतिक्षण शंका ग्राशंका
मेरी तुम्हारी नहीं बात
आज मुझे अनायास ही हुआ भास
बहुतों की ऐसी निकल गई होंगी अधीर सारी रात

प्रिया ने काट दी चुपचाप जीवन यामिनी
नहीं की उस टीस को कुछ बात
नहीं की
टीस की कुछ बात

चांदनी चूनर

● फूलों के झुरझुट

हौले हौले की पदचाप
दबी पवन के साथ सुनाई पड़ती
तंद्रिल अलकों का अटकाव
सुलभना
फिर फिर साफ़ सुनाई पड़ता

चूप सोई इस नई चमेली के नीचे
नूपुर किसके मंद लजीले बज उठते हैं
इतनी रात गए—

गहरी खुशबू केसर की
बढ़ी हुई मेहदी के नीचे फैल रही है

पीला पड़कर सूरज नीचे उतरा
या सहमा सा चांद उतरकर
उलझ गया है
फूलों के भूरमुट में

● तुम सुंदर हो, घर सुंदर हो

जब मैं थका हुआ घर आऊं, तुम सुंदर हो घर सुंदर हो

चाहे दिन भर वहें पसीने
कितने भी हों कपड़े सीने
बच्चा भी रोता हो गीला
आलू भी हो आधा छीला

जब मैं थका हुआ घर आऊं, तुम सुंदर हो घर सुंदर हो

सब तूफान रुके हों घर के
मुझको देखो आखों भर के
ना जूँड़े में फूल सजाए
ना तितली से बसन, न नखरे

जब मैं थका हुआ घर आऊं, तुम सुंदर हो घर सुंदर हो

अधलेटी हो तुम सोफे पर
फाँसिन मैंगजीन पढ़ती हो
शीशे सा घर साफ पड़ा हो
आहट पर चौकी पढ़ती हो

तुम काविता मन लिखो सलोनी, मैं काफी हूँ, तुम ग्रियतर हो
जब मैं थका हुआ घर आऊं, तुम सुंदर हो घर सुंदर हो

● बदली का चांद

जहां भीगी रातों को लिपटाए
सोता है आसमान
गहरे श्याम धनों से ढका
छुपा कर छाती में चांद
बेहोश बना आसमान

अधरात सुनसान
बाहर सूने पथ पर
रात है निकलती
बैठ जाता पथिक अकेला
आंख मूँद पड़े पह्थर पर
दो दो मन के पांव हुए जो
हल्के करने
जली हुई आंखों में
रीते सपने भरने



● मध्यवित्त

बीन है, सितार है, वायलिन है
पर जिदगी
खोखला भोंपू है
सायरन है

गीत
अब रीत सी है
भाव रस विहीन
कड़वी कुनीन सी है
अर्थ के पुआल पर पड़ा पड़ा
सोच रहा
जीवन के भाव का
उतार चढ़ाव आज क्या है

क्रीमत चढ़ने की जगह
गिरती ही जाती
बाती इंसानियत की
कटती ही जाती

● फिक्र का लबादा

यह लबादा फिक्र का
पहिना है क्यूं
छोड़ने को जी न होता
फिर गमां से भागता है क्यूं
छोड़ कर ही देखले
होता है क्या

मन तेरा रंगीन है
दिख रही रंगों भरी ही यह जमीं
मन मिलाना रंग मिलाना सीखले
मन मिलाकर देखले
होता है क्या

कहीं चक्कर घूमते हैं दुःख के

रंग दिखते लाल
या बदरंग—ओ! बेहाल
कहीं करहन और सिसकन
छूटते हैं हँसी के भूचाल
रस निराले जग के सारे
लूट कर ही देखले
होता है क्या

● रिक्त चितवन

आज रसीली चितवन फैली
रिक्त गगन में
क्यों नहीं किसी की आँखों में गड़ पाती
कांटा सा छुभ जाती
अंबुधि सा भर देती
तूफान उठाती
लहरों पर लहरें धरकर
झाग बिछाती
जीवन का फल मिले किसी को
क्यों नहीं
किसी की आँखों में गड़ पाती
तीखी हो
मादक कदु हो

पैनी कटार सी लग कर
अन्तस्तल भैद
मानस भावों में भर जाती
क्यूँ शून्य गगन में फैली
तेजहीन हो व्यर्थ,
सीमित धेरे में
श्रशब्द हो
प्रान बिंदु बिखराती
आज अकेली गाती

मादकता खाली उडेलती
रिक्त गगन में
भर दे पथ
उपवन
ग्राम, देश
नदियां, पहाड़
सागर, समतल
रंगीन धरा हो
लाल शराब सी फैले
चार दिनों का बास
सुरभि से पूरित हो
शरबत का भरना सा फूटे
मन की पृथ्वी ओत प्रोत हो
कोई झूंबे

● हिम शिला

हिम-शिला !
तुममें जीवन है
तुम शिला
फिर भी हिलता दीप की लो सा
तुम्हारा हिया
तभी तो तुम पिघल-पिघल कर रसधार सी बही हो
इंद्रधनु के रंग भी जब-जब तुम पर पड़े हैं
कठले पर आने को मोती परस्पर लड़े हैं
तुम दीप्त हो दुग्नित रंगों से उन किरणों को
स्वीकारतीं
मृग जब तुम्हें खींचता
आकर्षित हो तुम वाष्प ऊष्म उसकी ओर
निहारतीं
गरम बादल जो पास तुम्हारे जाते ठंडक देतीं

तुम वैर्य की मूर्ति
सब गुण तुमर्म साकार
फिर भी तुम शिला !

शिला तुम्हें नहीं बनाया किसी ने
स्नेह अंबुधि पर ठेस लगी जमी तुम्हारी गंगा
ऐसी ठेस लगाने वाला और कौन
वह पशु नहीं
पशु तो प्यार पहिचानते
अन्त तक निवाहते
ये काम किसी मानव का है
तुमने स्वयं शिला होना स्वीकारा
ये अधिक सत्य हैं
नहीं तो तुम हिम शिला न होकर
पथर होतीं
तुम्हारे छिपे बदन में रस अब भी बोलता है
कहां नहीं रस धोलता है
ये भेद तुम्हारा कौन जान सका है
किन्तु मैंने जान लिया है

शिला बना जीवन ही जग में नारी का
कौन भावना बच्ची तुम्हारी
कौन भावना मुक्त हँसी बढ़ी
कौन भावना अकेली ही पली खिली
अपनी गति जमाई तुमने
हितार्थ दूसरों के निर्झर फिर नदी बहाई तुमने
बहुत सुखी हो

मैंने तुमसे सीख लिया बरफ हो जाना
और फिर जमते जमते शिला एक दिन
जाते आते तूफान भयंकर
भूडौल बवंडर
रोक पाऊंगी
इतनी शक्ति समो पाऊंगी

चांदनी चूमर

● आंधी का दिया

धन्य दीपक
इतनी आंधियों के बाद भी
तू रोशन है
जलते जलते ध्यान रहे
कालख व धुंआ
इतना न बढ़े
मुँह पर पुते
आंख भरे
ज्योति बुझे

● कलाकार की आवाज़

ओ पास के परिचित
हरे भरे के साथी
तुम इस पथ में अजाने से, अपरिचित से लगते
इस नीम की छायाओं में
सपनों की छाया से चलते
ये भरा पथ भी उजाड़
ये भरा मन भी उजाड़
दो चाँद इस खुले आकाश में यों
लुटे लुटे भटकते

हवा जो समुद्र की लहर सी आती थी
रखे मिले दो सितारों सी एक राग गाती थी
हर समय की स्वर गंगा
क्या क्या न रूप, रस, गंध सरसाती थी

आज उस प्यार के आकाश में टूटे हुए
तारे की रेख सी भी कहीं न हीं
रुक गया सब कुछ वहीं
कलाकार भाव है, मूर्ति नहीं
मूर्ति तो तुम उसे बनाते हो
गहराई में झूब जाता है
तुम उसे उठाते हो

बालक सा
क्षण भर में ऊबता है
बंधी गाँठें खोलता है
आनंद के इस उबाल को, मनस्ताप को
न संभाल पाता है
तभी गीत गाता है

समय कट गया थोड़ा सा
कलाकार बरगद सा भूम उठा
अब एक एक पत्ते को
उसकी हर थिरक को
डालें की भूम
लटों की घूम
जड़ों को आंकने का समय तो दो, साथी
झूबा रहा तुम्हीं में तो
क्या तस्वीर आंक पाएगा

ज्यों-ज्यों मन मथेगा
ह्यों-स्यों सूना भी मेंहदी सा पिस-पिस रचेगा
कलम चलेगी अधिक रसवती होकर
नए-नए रंग आ बसेंगे
बासी फूलों में
तुम देखोगे नई लहर आ रही है सूखे कूलों में
तब हर चाँद इस चाँद पर रुकेगा
हर रस यहीं इस बूँद पर चुकेगा
इसलिए पास के परिचित
तुम अजाने से, अपरिचित से रहो

●अन्तर की पूर्णता

चाँदनी की सित उज्ज्वलता, शीतलता
आज कुछ कम है
इन काले बादलों से जो चारों ओर से घिरे आ रहे
किन्तु क्या उसकी पूर्णता में कुछ कमी है
ये उसे कैसा भ्रम है
प्रदर्शन तो
भीतर की किसी कमी को व्यक्त करता है

• सिहरन का भार

उन्होंने कहा
ग्राज फिर पूरनमासी का चांद
निकला है
देखो ना—
मैंने 'हूँ' कहकर
टाल दिया
मदमाती सिहरती हवा पर
अपनी भी सिहरन का भा
डाल दिया

• बसंती फूल

जीवन में जो चाहा अब तक
वही मिला है
इसीलिए तुझ पर जो विश्वास जमाया था
वह नहीं हिला है

कई बार आए भूचाल
काँपे घर के द्वार दोवार
ऐसा लगा अनेक बार
अबकी छह पड़ेगा ये किला है
किन्तु पतझर होने पर भी
इस गमले पर
हर बार बसंती फूल खिला है
जीवन में जो चाहा
अब तक वही मिला है

